



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 370]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 1981/कार्तिक 25, 1903

No. 370]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 1981/KARTIKA 25, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिमूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1981

सा० का० नि० 602 (अ):— भारतीय वन सेवा (संवर्ग' नियमावली, 1966 के नियम 4 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से, भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियन्त्रण) विनियमावली, 1966 में और प्राप्ति संशोधन करने के लिए, एनडब्ल्यू निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

(1) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियन्त्रण) आठवां संशोधन विनियमावली 1981 है।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियन्त्रण) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में "मध्य प्रदेश" शीर्षक तथा उसके नीचे पड़ने

वाणी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"मध्य प्रदेश

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद :

171

प्रधान मुख्य वनपाल

1

मुख्य वनपाल

2

अपर मुख्य वनपाल

3

अपर मुख्य वनपाल, वन्य जीवन

1

अपर मुख्य वनपाल, संसाधन सर्वेक्षण

1

वनपाल

13

वनपाल, उत्पादन

4

वनपाल, सामाजिक वानिकी

1

वनपाल, कार्य योजना

1

निदेशक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान

1

उप-वनपाल

59

उप-वनपाल, उत्पादन/विक्री

45

उप-वनपाल, संरक्षण

5

उप-वनपाल, वनरोपण	6
उप-वनपाल, वन्य जीवन	3
उप-वनपाल, मुख्यालय	10
उप-वनपाल, वन संसाधन	2
उप निदेशक, राज्य वन संसाधन संस्थान	1
प्रधानाचार्य, वन विद्यालय	4
कार्य योजना अधिकारी	8
	171

2. उपर्युक्त 1 के 20 प्रतिशत के हिसाब से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	34
	205

3. भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद	68
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद	137
5. उपर्युक्त 4 के 15 प्रतिशत के हिसाब से प्रतिनियुक्ति रिजर्व	38*
6. उपर्युक्त 4 के 11 प्रतिशत के हिसाब से छुट्टी रिजर्व	15
7. उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से कनिष्ठ पद	27
8. उपर्युक्त 4 के 10 प्रतिशत के हिसाब से प्रशिक्षण रिजर्व	14

सीधी भर्ती पद	231
पदोन्नति पद	68
कुल प्राधिकृत पद संख्या	299**

*इसमें 17 पदों की तदर्थ वृद्धि शामिल है।

[संख्या 16016/22/80-अ० भा० से० (IV)-क]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th November, 1981

G.S.R. 602 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (a) of section 3 of the All India Service Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 4 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government, in consultation with the Government of Madhya Pradesh, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, namely :—

- (1) These Regulations may be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Seventh Amendment Regulations, 1981.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Schedule to the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, for the heading "Madhya

Pradesh" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely :—

"MADHYA PRADESH

1. SENIOR POSTS UNDER THE STATE GOVERNMENT :

Principal Chief Conservator of Forests	1
Chief Conservator of Forests	2
Additional Chief Conservator of Forests	3
Additional Chief Conservator of Forests, Wild Life	1
Additional Chief Conservator of Forests, Resources Survey	1
Conservator of Forests	13
Conservator of Forests, Production	4
Conservator of Forests, Social Forestry	1
Conservator of Forests, Working Plan	1
Director, State Forests Research Institute	1
Deputy Conservator of Forests	59
Deputy Conservator of Forests, Production/ Sales	45
Deputy Conservator of Forests, Soil Conservation	5
Deputy Conservator of Forests, Plantation	6
Deputy Conservator of Forests, Wild Life	3
Deputy Conservator of Forests, Headquarters	10
Deputy Conservator of Forests, Forest Resources	2
Deputy Director, State Forest Research Institute	1
Principal, Forest School	4
Working Plan Officer	8

	171
2. Central Deputation Reserve @ 20% of 1 above	34
	205

3. Posts to be filled by promotion in accordance with rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966	68
4. Posts to be filled by direct recruitment	137
5. Deputation Reserve @ 15% of 4 above	38*
6. Leave Reserve @ 11% of 4 above	15
7. Junior Posts @ 20% of 4 above	27
8. Training Reserve @ 10% of 4 above	14

Direct Recruitment posts	231
Promotion Posts	68

Total Authorised Strength	299**
---------------------------	-------

*includes an *ad hoc* increase of 17 posts.

[No. 16016/22/80-AIS (iv)-A]

सा० का० नि० 603 (अ) :- केन्द्रीय सरकार, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 के नियम 11 के साथ पठित अधिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए, एनद्राया निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1981 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम 1968 में:—

(क) अनुसूची III-क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के समय वेतनमान में अधिक वेतन वाले पदों की तालिका में प्रथम कालम में पड़ने वाली प्रविष्टि "मध्य प्रदेश" और द्वितीय तथा तृतीय कालमों में तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

"मध्य प्रदेश

प्रधान मुख्य वनपाल	2500-125/2-2750
मुख्य वनपाल	2500-125/2-2750
अपर मुख्य वनपाल	2250-125/2-2500
अपर मुख्य वनपाल-वन्य	2250-125/2-2500
अपर मुख्य वनपाल-संसाधन सर्वेक्षण	2250-125/2-2500
वनपाल	1800-100-2000
वनपाल-उत्पादन	1800-100-2000
वनपाल-सामाजिक वनोद्योग	1800-100-2000
वनपाल-कार्य योजना	1800-100-2000
निदेशक राज्य वन अनुसंधान संस्थान	1800-100-2000"

(ख) अनुसूची III-ख में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के समय वेतन मान में वेतन के प्रतिस्तरित विशेष वेतन वाले पदों सहित वरिष्ठ समय वेतनमान के वेतन वाले पदों की तालिका में प्रथम कालम में पड़ने वाली प्रविष्टि "मध्य प्रदेश" और द्वितीय तथा तृतीय कालमों में तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

"मध्य प्रदेश

उप वनपाल
उप वनपाल-उत्पादन/विक्रय
उप वनपाल-भू-संरक्षण
उप वनपाल-वनरोपण
उप वनपाल-वन्य प्राणी
उप वनपाल-मुष्णालय
उप वनपाल-वन्य संसाधन
उप निदेशक राज्य वन अनुसंधान संस्थान
प्रधानाचार्य वन विद्यालय
कार्य योजना अधिकारी"

[संख्या 16016/22/80-प्र० भा० से० (IV) - ख]

पी० एन० कोहली, अवसर सचिव

G.S.R. No. 603 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3, of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, the Central Government, in consultation with the Government of Madhya Pradesh, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Indian Forest Service (Pay) Eighth Amendment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968:—

(a) In Schedule III-A— Posts carrying pay above the time scale pay in the Indian Forest Service under the State Governments, in the Table for the entry "Madhya Pradesh" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely:—

"MADHYA PRADESH

Principal Chief Conservator of Forest	2500-125/2-2750
Chief Conservator of Forests	2500-125/2-2750
Additional Chief Conservator of Forests.	2250-125/2-2500
Additional Chief Conservator of Forests—Wild Life	2250-125/2-2500
Additional Chief Conservator of Forest Resources Survey	2250-125/2-2500
Conservator of Forests	1800-100-2000
Conservator of Forests, Production	1800-100-2000
Conservator of Forests, Social Forestry	1800-100-2000
Conservator of Forests, Working plan	1800-100-2000
Director, State Forest Research Institute	1800-100-2000"

(b) In Schedule-III-B—Posts carrying pay in the senior time scale of the Indian Forest Service under the state Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time scale, for the entry "Madhya Pradesh" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

"MADHYA PRADESH

Deputy Conservator of Forests
Deputy Conservator of Forests, Production/Sales
Deputy Conservator of Forests, Soil Conservation
Deputy Conservator of Forests, Plantation
Deputy Conservator of Forests, Wild Life
Deputy Conservator of Forests, Head quarters.
Deputy Conservator of Forests, Forest Resources
Deputy Director, State Forest Research Institute
Principal Forest School Working Plan Officer"

[No. 16016/22/80-AIS (IV) -B]

P.N. KOHLI, Under Secy.

